



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 15, 2023 (SRAVANA 24, 1945 SAKA)

CONTENTS		Pages
PART I—	Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government	.. 683-697
PART I-A—	Notifications by Local Government Department	.. Nil
PART I-B—	Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	.. Nil
PART II—	Statutory Notifications of Election Commission of India— Other Notifications and Republications from the Gazette of India	.. Nil
PART III—	Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name and Notices	.. 787-816
PART III-A—	Notifications by Universities	.. 45
PART III-B—	Notifications by Courts and Notices	.. Nil
PART IV—	Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India	.. Nil
PART V—	Notifications by Haryana State Legislature	.. Nil
SUPPLEMENT PART I—	Statistics— Consumer Price Index for the month of May, 2023 to June, 2023. Working Class Cost of Living Index Numbers from January, 2023 to June, 2023.	.. 91-94
SUPPLEMENT PART II—	General Review-	.. Nil
LEGISLATIVE SUPPLEMENT —	Contents	.. Nil
Ditto	PART I—Act	.. Nil
Ditto	PART II—Ordinances	.. Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation	.. Nil
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements	.. Nil



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 15, 2023 (SRAVANA 24, 1945 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जुलाई, 2023

**संख्या 2/23/2016-1Pension(FD).**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।  
(2) ये नियम 19 जुलाई 2016 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 54 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“54. पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में परिवार के अगले पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन:—

किसी पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में, उसकी विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन उसी पेंशन भुगतान आदेश के अधीन की जाएगी, जिसके अधीन पेंशनभोगी अपनी पेंशन आहरित कर रहा था। पेंशन संवितरण प्राधिकारी, पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए साधारण अनुरोध के साथ पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन का भुगतान आरंभ कर देगा। यदि विधवा/विधुर जीवित नहीं है या पात्र नहीं है, तब पारिवारिक पेंशन परिवार के अन्य पात्र सदस्य को भुगतानयोग्य होगी, जो संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान आदेश के साथ स्वयं की फोटो की दो प्रतियां और पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अभ्यर्पण करके आवेदन करेगा। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर मामले को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा को नया पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए अग्रेषित करेगा। ऐसे सदस्य, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना पारिवारिक पेंशन, यदि कोई हो, के जीवनकालिक बकाया को प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। जहां परिवार का कोई अगला सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तो जीवनकालिक बकायों का भुगतान मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान में उपबंधित नामांकन के अनुसार अन्यथा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।”

- उक्त नियमों में, प्ररूप पेंशन 16 में, क्रम संख्या 24 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात्:—

“24क	मृत्यु-एवं- सेवानिवृत्ति उपदान की राशि”।	
------	--	--

4. उक्त नियमों में, प्ररूप पेंशन 17 में, क्रम संख्या 27 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

"27क	मृत्यु-एवं- सेवानिवृत्ति उपदान की राशि"।	
------	--	--

अनुरोग रस्तोगी,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### FINANCE DEPARTMENT

#### Notification

The 28th July, 2023

**No. 2/23/2016-1Pension(FD).**— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the **Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016**, namely:-

- (1) These rules may be called the **Haryana Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2023**.
- (2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 19th July, 2016.
- In the **Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016** (herein after called the said rules), for rule 54, the following rule shall be substituted, namely:-

**“54. Family pension to next eligible family member in the event of death of pensioner:-**

In the event of death of a pensioner, the family pension to his/her widow/widower shall be made under the same pension payment order under which the pensioner was drawing his pension. The pension disbursing authority shall start payment of family pension to the widow/widower on receipt of death certificate of the pensioner along with a simple request for the grant of family pension. If the widow/widower is not alive or eligible then the family pension shall be payable to the other eligible family member(s), who shall apply to the concerned **pension sanctioning authority** by surrendering the pension payment order of the pensioner along with two copies of self photograph and the other necessary documents as required by the **pension sanctioning authority**. The **pension sanctioning authority** on receipt of such request shall forward the case to the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana for issue of fresh pension payment order. Such member(s) shall also be entitled to receive the life time arrears of family pension, if any, without production of succession certificate. Where there is no next family member eligible for family pension, the payment of life time arrears shall be made as per nomination provided for death-cum-retirement gratuity otherwise on production of succession certificate.”

- In the said rules, in Form Pen-16, after serial number 24, the following serial number shall be inserted, namely:-

“24A.	Amount of death-cum-retirement gratuity”.	
-------	---	--

- In the said rules, in Form Pen-17, after serial number 27, the following serial number shall be inserted, namely:-

“27A.	Amount of death-cum-retirement gratuity”.	
-------	---	--

ANURAG RASTOGI,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Finance Department.